

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 30, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश

उमरिया, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 3962-जनगणना-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1965 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने, उसमें संशोधित करने, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	जिला कलेक्टर	कलेक्टर, उमरिया	जिला रजिस्ट्रार	संबंधित जिला
2	तहसील बाँधवगढ़	तहसीलदार, बाँधवगढ़	उप जिला रजिस्ट्रार	तहसील बाँधवगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील पाली	तहसीलदार, पाली	उप जिला रजिस्ट्रार	तहसील पाली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	तहसील मानपुर	तहसीलदार, मानपुर	उप जिला रजिस्ट्रार	तहसील मानपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील चंदिया	तहसीलदार, चंदिया	उप जिला रजिस्ट्रार	तहसील चंदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	नगरपालिका, उमरिया	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उमरिया.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, उमरिया.	नगरपालिका, उमरिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
7	नगरपालिका, चंदिया	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चंदिया.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, चंदिया.	नगरपालिका, चंदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
8	नगरपालिका, पाली	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पाली.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, पाली.	नगरपालिका, चंदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9	नगरपालिका, नगर पंचायत, नौरोजाबाद.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत नौरोजाबाद.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, नौरोजाबाद.	नगरपालिका, नौरोजाबाद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
11	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

सुरेन्द्र उपाध्याय, जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव/अति. सचिव
एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

कार्यालय, कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्र. 578-जनगणना-2012.—निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश, जनगणना भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक आई-11011-43-2009-एन.पी.आर.-डी.सी.ओ.-2409, दिनांक 19 डी.सी.टी. 2012 के परिपालन में, राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र.

एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित)में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीयन और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्ति किए जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील गोपदबनास.	तहसील गोपदबनास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र को छोड़कर.
2	तहसील	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील चुरहट.	तहसील चुरहट के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील रामपुर नैकिन.	तहसील रामपुर नैकिन के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सिहावल.	तहसील सिहावल के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (शहरी ग्रामीण).
5	तहसील	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मझौली.	तहसील मझौली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कुसमी.	तहसील कुसमी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण सहित.
7	नगरपालिका	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सीधी.	नगरपालिका, सीधी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र सीमा.
8	नगरपालिका	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, चुरहट.	नगर पंचायत, चुरहट के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र सीमा.
9	नगरपालिका	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, मझौली.	नगर पंचायत, मझौली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
10	नगरपालिका	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, रामपुर नैकिन, सीधी.	नगर पंचायत, रामपुर नैकिन के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.

समस्त उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत आदेश जारी किये जाने की शक्तियां प्रदान की जाती है अतएव नियुक्ति आदेश के उपरान्त पदांकित अधिकारियों की सूची जिला कार्यालय में तत्काल भिजवायें ताकि राजपत्र में प्रकाशन की कार्यवाही की जा सके.

मसूद अख्तर, जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव,
जिला रजिस्ट्रार एन.पी.आर.

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्र. 1239-जनगणना-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधित करने, और “राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील अशोकनगर	तहसीलदार, अशोकनगर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील अशोकनगर.	तहसील अशोकनगर के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
	तहसील मुंगावली	तहसीलदार, मुंगावली	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मुंगावली.	तहसील मुंगावली के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
	तहसील चंदेरी	तहसीलदार, चंदेरी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील चंदेरी.	तहसील चंदेरी के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
	तहसील ईसागढ़	तहसीलदार, ईसागढ़	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील ईसागढ़.	तहसील ईसागढ़ के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
	तहसील शाढौरा	तहसीलदार, शाढौरा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील शाढौरा.	तहसील शाढौरा के अन्दर पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
2	नगरपालिका, अशोकनगर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, अशोकनगर.	नगरपालिका, अशोकनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगरपालिका, चंदेरी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील चंदेरी.	नगरपालिका, अशोकनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
3	नगर पंचायत, ईसागढ़	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील ईसागढ़.	नगर पंचायत, ईसागढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
	नगर पंचायत, मुंगावली	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मुंगावली.	नगर पंचायत, मुंगावली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
4	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित ग्राम/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित ग्राम/जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-अशोकनगर

दिनांक 26 नवम्बर 2012.

संकेत भोंडवे, जिलाध्यक्ष एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर).

Ashoknagar, the 27th November 2012

No. 1241-Census-2012.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD order No. F-10-1-2012-2-A (3) dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette 17th February 2012 & under rules, 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following officers are appointed as the Registers for National Population Register with NPR designations mentioned in col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5) of Schedule:—

SCHEDULE

Sl. No.	Administrative Unit	Designation	To be appointed as	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tahsil Ashoknagar	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Ashoknagar.	Entire Tahsil Ashoknagar (excluding urban areas).
	Tahsil Shadora	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Shadora.	Entire Tahsil Shadora (excluding urban areas).
	Tahsil Isagarh	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Isagarh.	Entire Tahsil Isagarh (excluding urban areas).
	Tahsil Mungaoli	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Mungaoli.	Entire Tahsil Mungaoli (excluding urban areas).
	Tahsil Chanderi	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Chanderi.	Entire Tahsil Chanderi (excluding urban areas).
2	Municipality, Ashoknagar.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality Ashoknagar.	Entire urban area of Ashoknagar. Municipality.
	Municipality Chanderi.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality Chanderi.	Entire urban area of Chanderi Municipality.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Nagar Panchayat Isagarh.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Isagarh.	Entire urban area of Isagarh Nagar Panchayat.
	Nagar Panchayat Mungaoli.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Mungaoli.	Entire urban area of Mungaoli. Nagar Panchayat.
4	Respective Village(s).	Patwari	Local Registrar	Entire area of respective Village/ Censuse Town /Out Growth.
5	Respective Ward(s).	Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitary Inspector/ Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector.	Local Registrar	Entire urban area in Respective wards of Statutory Towns (Municipality/Nagar Panchayat).

The Sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place : Ashoknagar.

SANKET BHONDVE, Collector and District Registrar (NPR).

Date : 26th November 2012

कार्यालय, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्र. 4556-2012-जन.-2011-डी.सी.ओ.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और “राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील शिवपुरी	तहसीलदार, शिवपुरी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील शिवपुरी.	तहसील शिवपुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील कोलारस	तहसीलदार, कोलारस	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कोलारस.	तहसील कोलारस के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील बदरवास	तहसीलदार, बदरवास	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बदरवास.	तहसील बदरवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील पोहरी	तहसीलदार, पोहरी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पोहरी.	तहसील पोहरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	तहसील करैरा	तहसीलदार, करैरा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील करैरा.	तहसील करैरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील नरवर	तहसीलदार, नरवर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नरवर.	तहसील नरवर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील पिछोर	तहसीलदार, पिछोर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पिछोर.	तहसील पिछोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील खनियाधाना	तहसीलदार, खनियाधाना.	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील खनियाधाना.	तहसील खनियाधाना के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	नगरपालिका, शिवपुरी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, शिवपुरी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, शिवपुरी.	नगरपालिका, शिवपुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगर पंचायत, कोलारस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कोलारस.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कोलारस.	नगर पंचायत, कोलारस के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगर पंचायत, बदरवास	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बदरवास.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बदरवास.	नगर पंचायत, बदरवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	नगर पंचायत, करैरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, करैरा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, करैरा.	नगर पंचायत, करैरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	नगर पंचायत, नरवर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नरवर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, नरवर.	नगर पंचायत, नरवर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	नगर पंचायत, पिछोर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पिछोर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, पिछोर.	नगर पंचायत, पिछोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगर पंचायत, खनियाधाना.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खनियाधाना.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, खनियाधाना.	नगर पंचायत, खनियाधाना के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
17	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. ए-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-शिवपुरी

दिनांक

आर. के. जैन, जिलाध्यक्ष एवं उप सचिव/अति. सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

Shivpuri, the 6th December 2012

No. 4556-2012-Census-2011-D.C.O.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD order No. F-10-1-2012-2-A (3) dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette, dated 17th February 2012 & under rules, 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in col. No. (5) of the Schedule:—

SCHEDULE

Sr. No.	Administrative Unit	Designation	To be Appointed as	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tahsil Shivpuri	Tahsildar, Shivpuri	Sub-District Registrar, Tahsil Shivpuri.	Entire Tahsil Shivpuri (excluding urban area).
2	Tahsil Kolaras	Tahsildar, Kolaras	Sub-District Registrar, Tahsil Kolaras.	Entire Tahsil Kolaras (excluding urban area).
3	Tahsil Badarwas	Tahsildar, Badarwas	Sub-District Registrar, Tahsil Badarwas.	Entire Tahsil Badarwas (excluding urban area).
4	Tahsil Pohri	Tahsildar, Pohri	Sub-District Registrar, Tahsil Pohri.	Entire Tahsil Pohri (excluding urban area).
5	Tahsil Karera	Tahsildar, Karera	Sub-District Registrar, Tahsil Karera.	Entire Tahsil Karera (excluding urban area).
6	Tahsil Narwar	Tahsildar, Narwar	Sub-District Registrar, Tahsil Narwar.	Entire Tahsil Narwar (excluding urban area).
7	Tahsil Pichore	Tahsildar, Pichore	Sub-District Registrar, Tahsil Pichore.	Entire Tahsil Pichore (excluding urban area).
8	Tahsil Khaniyadhana.	Tahsildar, Khaniyadhana.	Sub-District Registrar, Tahsil Khaniyadhana.	Entire Tahsil Khaniyadhana (excluding urban area).
9	Municipality, Shivpuri.	Chief Municipal Officer, Shivpuri.	Sub-District Registrar, Municipality Shivpuri.	Entire urban area of Shivpuri Municipality.
10	Nagar Panchayat, Kolaras.	Chief Municipal Officer, Kolaras.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Kolaras.	Entire urban area of Kolaras Nagar Panchayat.
11	Nagar Panchayat, Badarwas.	Chief Municipal Officer, Badarwas.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Badarwas.	Entire urban area of Badarwas Nagar Panchayat.
12	Nagar Panchayat, Karera.	Chief Municipal Officer, Karera.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Karera.	Entire urban area of Karera Nagar Panchayat.
13	Nagar Panchayat, Narwar.	Chief Municipal Officer, Narwar.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Narwar.	Entire urban area of Narwar Nagar Panchayat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Nagar Panchayat, Pichore.	Chief Municipal Officer, Pichore.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Pichore.	Entire urban area of Pichore Nagar Panchayat.
15	Nagar Panchayat, Khaniyadhana.	Chief Municipal Officer, Khaniyadhana.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Khaniyadhana.	Entire urban area of Khaniyadhana Nagar Panchayat.
16	Respective Villages	Patwari	Local Registrar	Entire area of respective Village/ Census Town /Our Growth.
17	Respective Wards.	Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitary Inspector/ Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector.	Local Registrar	Entire urban area in respective wards of Statutory Towns (Municipal Corporations/Municipalities/ Cantonment Board/Nagar Panchayat).

The Sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place : Shivpuri

Date :

R. K. JAIN, Collector & Dy. Secretary/
Addl. Secretary and District Registrar (NPR).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुँरैना एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

मुँरैना, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 1432-18-2-2012.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क (1) तथा धारा 06 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मुँरैना जिले की मुँरैना तहसील में नगरपालिका परिषद्, मुँरैना के क्षेत्र से लगे हुए स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने के अपने अभिप्राय को प्रकट करता है और उक्त स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं नीचे अनुसूची में दिये गये रूप में निश्चित करता है.

इनमें अन्तर्विष्ट किसी बात के संबंध में उक्त अनुसूची में निश्चित किये गये स्थानीय क्षेत्र के किसी वयस्क निवासी को किसी भी आपत्ति पर जो जिला मुँरैना के कलेक्टर को इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो" राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

अनुसूची-1

मुँरैना जिले की मुँरैना तहसील की नगरपालिका मुँरैना में सम्मिलित किये गये स्थानीय क्षेत्र का विवरण :—

स.क्र.	जिला	तहसील	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम जो सम्मिलित किये जाने	घोषित किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टरों में)	क्षेत्र का विवरण तथा सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुँरैना	1. मुँरैना	1. जौरा खुर्द	1. जौरा खुर्द	659.280	सम्पूर्ण भाग
2	-''-	-''-	2. लालौर	2. लालौर	732.021	सम्पूर्ण भाग
3	-''-	-''-	3. मुंगावली	3. मुंगावली	910.226	सम्पूर्ण भाग
4	-''-	-''-	4. जींगनी	4. जींगनी	1471.859	सम्पूर्ण भाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	मुरैना	1. मुरैना	5. जगतपुर	5. जगतपुर	513.187	सम्पूर्ण भाग
6	-''-	-''-	6. भौंडेरी	6. भौंडेरी	750.766	सम्पूर्ण भाग
7	-''-	-''-	7. जेबरा खेडा	7. जेबरा खेडा	394.407	सम्पूर्ण भाग
8	-''-	-''-	8. मुडिया खेरा	8. मुडिया खेरा	643.287	सम्पूर्ण भाग
9	-''-	-''-	9. मुरैना गांव	9. मुरैना गांव	1064.145	सम्पूर्ण भाग
10	-''-	-''-	10. छौंदा	10. छौंदा	592.097	सम्पूर्ण भाग
				11. शिकारपुर		
11	-''-	-''-	11. बडोखर	12. बडोखर	390.980	सम्पूर्ण भाग
12	-''-	-''-	12. जौरी	13. जौरी	414.946	सम्पूर्ण भाग
13	-''-	-''-	13. अतरसुमा	14. अतरसुमा	335.675	सम्पूर्ण भाग
14	-''-	-''-	14. इमलिया	15. इमलिया	384.058	सम्पूर्ण भाग
15	-''-	-''-	15. गंजरामपुर	16. गंजरामपुर	1151.00	सम्पूर्ण भाग
16	-''-	-''-	16. निवी	17. निवी	366.00	सम्पूर्ण भाग
17	-''-	-''-	17. डोमपुरा	18. डोमपुरा	427.00	सम्पूर्ण भाग
18	-''-	2. जौरा	18. खनेता	19. खनेता	788.00	सम्पूर्ण भाग
19	-''-	-''-	19. महाराजपुर	20. महाराजपुर	407.61	सम्पूर्ण भाग
20	-''-	-''-	20. सिलायथा	21. सिलायथा	696.85	सम्पूर्ण भाग
					<u>13093.394</u>	

अनुसूची-2

प्रस्तावित क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने पर नगरपालिका, मुरैना की चतुर सीमा :-

उत्तर दिशा में—क्वारी नदी

पूर्व दिशा में—ग्राम, लालौर, इमलिया, जौंगनी, जेबरा खेडा, जगतपुर, गंजरामपुर

दक्षिण दिशा में—आसन नदी

पश्चिम दिशा में—ग्राम छौंदा, जौरा-जोरी, मुंगावली, महाराजपुर, खनेता, सिलायथा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मुरैना, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 1432-18-2-2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.18-2-2012, दिनांक 12 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Morena, the 12th December 2012

No. 1432-18-2-2012.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 k (1) & Section 6 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby signifies its intention to declare the villages comprised in Municipal Council, Morena in Morena Tehsil, District Morena to be Municipality and defines the limits of the said villages as given in the Schedule below.

Any objection which may be received in writing by the Collector, District Morena from any adult inhabitant of the villages defined in the said Schedule in respect of anything herein contained within thirty days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government :—

SCHEDULE-I

Limits the villages comprised in Morena Town in Morena Tehsil of Morena District.

S. No.	Ditt.	Tehsil	Names of the Panchayat	Names of the villages	Area to be declared (in Hectare)	Limits of the area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Morena	1. Morena	1. Jora Khurd	1. Jora Khurd	659.280	Whole of the village
2	"	"	2. Lalor	2. Lalor	732.021	Whole of the village
3	"	"	3. Mungawali	3. Mungawali	910.226	Whole of the village
4	"	"	4. Jigni	4. Jigni	1471.859	Whole of the village
5	"	"	5. Jagatpur	5. Jagatpur	513.187	Whole of the village
6	"	"	6. Bhondari	6. Bhondari	750.766	Whole of the village
7	"	"	7. Jabrakhera	7. Jabrakhera	394.407	Whole of the village
8	"	"	8. Mudia Khera	8. Mudia Khera	643.287	Whole of the village
9	"	"	9. Murenagaon	9. Murenagaon	1064.145	Whole of the village
10	"	"	10. Chhonda	10. Chhonda	592.097	Whole of the village
				11. Sikarpur		
11	"	"	11. Badokhar	12. Badokhar	390.980	Whole of the village
12	"	"	12. Jori	13. Jori	414.946	Whole of the village
13	"	"	13. Atarsuma	14. Atarsuma	335.675	Whole of the village
14	"	"	14. Imliya	15. Imliya	384.058	Whole of the village
15	"	"	15. Ganj Rampur	16. Ganj Rampur	1151.00	Whole of the village
16	"	"	16. Nibi	17. Nibi	366.00	Whole of the village
17	"	"	17. Dompura	18. Dompura	427.00	Whole of the village
18	"	2. Joura	18. Khaneta	19. Khaneta	788.00	Whole of the village
19	"	"	19. Maharajpur	20. Maharajpur	407.61	Whole of the village
20	"	"	20. Silaytha	21. Silaytha	696.85	Whole of the village
					<u>13093.394</u>	

SCHEDULE-II

Borders of Municipal; Area:—

North—Kuari River

East—Village Lalor, Imliya, Jigni, Jabrakhera, Jagatpur Ganj Rampur.

South—Assan River.

West—Village Chhonda, Joura-Jouri, Munagawli, Maharajpur, Khaneta, Silaytha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D.D. AGRAWAL, Collector & Spl. Secy.